

जयपुर में पकड़ा गया 2220 किलो मिलावटी सरसों तेल:47 लीटर नकली सरस घी किया जब्त, मावा भी जब्त किया गया



दीपावली के नजदीक आते ही शहर में मिलावटी तेल-घी, पनीर की बिक्री भी बढ़ने लगी है। इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अलग-अलग टीमों बनाई है। आज जयपुर शहर की टीम ने छापा मारते हुए 2220 किलो मिलावटी सरसों तेल और 47 लीटर नकली सरस घी किया जब्त किया। वहीं एक मिठाई की दुकान से मावा-पनीर के सैंपल लिए।

जयपुर जिला प्रशासन की टीम ने आज मुहाना मंडी अनाज मंडी सांगानेर का निरीक्षण किया जहां मैसर्स गोविंद नारायण कन्हैयालाल के यहां से छापा मारकर यहां से मिलावटी सरसों का तेल बरामद किया। इस पर टीम ने यहां से 148 टिन सरसों तेल भरा हुआ पाया, जिसे जब्त किया है। जब्त किए गए 2220 किलो सरसों का तेल में गणेश और कलश ब्रांड के सरसों तेल के टिन मौके पर पाए गए।

इसी तरह टीम ने एक फर्म के यहां 47 लीटर नकली सरस घी भी जब्त किया। मौके पर जयपुर डेयरी के केमिस्ट ने जांच करने पर यह भी नकली होना पाया। इसके बाद फर्म पर नकली सरस घी पाए जाने पर सरस डेयरी की ओर से कॉपीराइट एक्ट के तहत संबंधित फर्म खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई।

शिकायत के बाद पनीर, मावे के सैंपल लिए

जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि पिछले दिनों राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कुछ शिकायतें मिली, जिसके बाद आज टीम ने ज्योति नगर स्थित गणेश भोजनालय के यहां से पनीर और आटे के सैंपल लिए। इसके अलावा टीम ने ईएसआई हॉस्पिटल के सामने बागड़ा स्वीट्स का निरीक्षण कर यहां से भी मावा और पनीर का सैंपल जांच के लिए लिया गया।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/news/jaipur-team-seized-2220-kg-adulterated-mustard-oil-and-47-liters-of-fake-mustard-ghee-130439389.html>